

What is Consensus Decision Making? Why do we use it?

सर्वसम्मत निर्णय लेना क्या है? हम इसका उपयोग क्यों करते हैं?

1 Consensus Decision Making facilitates the love mode

१ सर्वसम्मत निर्णय लेने से प्रेम मोड की सुविधा मिलती है

2 Consensus Decision Making enables participants to take full responsibility for their decisions

२ सर्वसम्मति से निर्णय लेना प्रतिभागियों को अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है

3 Consensus Decision Making takes place in the context of Kalyana Mitrata

३ सर्वसम्मति से निर्णय लेना कल्याण मित्रता के संदर्भ में होता है

4 Consensus Decision Making is a Spiritual Practice

४ सर्वसम्मति से निर्णय लेना एक आध्यात्मिक अभ्यास है

Council Meetings – Three Main Stages:

परिषद की बैठकें - तीन मुख्य चरण:

1 Preparation

१ तैयारी

2 Chairing

२ अध्यक्षता करते हुए

3 Follow up

३ पालन करें

Levels of Council Meetings:

परिषद की बैठकों के विभिन्न स्तर:

1 Outer

१ आउटर

2 Inner

२ भीतरी

3 Secret

३ गुप्त

Body

काया

1 be physically present

१ शारीरिक रूप से उपस्थित रहें

Body

काया

1 be physically present

१ शारीरिक रूप से उपस्थित रहें

2 be ceremonious

२ समारोहपूर्वक रहो

Body

काया

1 be physically present

१ शारीरिक रूप से उपस्थित रहें

2 be ceremonious

२ समारोहपूर्वक रहो

3 be visible

३ दृश्यमान हो

working with criticism

आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

4 it may not be about you

४ हो सकता है कि यह आपके बारे में न हो

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

4 it may not be about you

४ हो सकता है कि यह आपके बारे में न हो

5 if you've done something wrong admit it

५ यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करें

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

4 it may not be about you

४ हो सकता है कि यह आपके बारे में न हो

5 if you've done something wrong admit it

५ यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करें

6 'next time it will be praise'

६ अगली बार यह तारीफ होगी

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

4 it may not be about you

४ हो सकता है कि यह आपके बारे में न हो

5 if you've done something wrong admit it

५ यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करें

6 'next time it will be praise'

६ अगली बार यह तारीफ होगी

7 an opportunity to develop self-knowledge

७ आत्म-ज्ञान विकसित करने का एक अवसर

working with criticism आलोचना के साथ काम करना

1 metta

१ मैत्री

2 recognise it as a fact of life

२ इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में पहचानें

3 develop right view

३ सम्यक दृष्टि विकसित करें

4 it may not be about you

४ हो सकता है कि यह आपके बारे में न हो

5 if you've done something wrong admit it

५ यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करें

6 'next time it will be praise'

६ अगली बार यह तारीफ होगी

7 an opportunity to develop self-knowledge

७ आत्म-ज्ञान विकसित करने का एक अवसर

8 develop individuality

८ वैयक्तिकता विकसित करें

Speech

वाणी

1 what you say carries extra weight

१ आप जो कहते हैं उसका अतिरिक्त महत्व है

Speech

वाणी

1 what you say carries extra weight

१ आप जो कहते हैं उसका अतिरिक्त महत्व है

2 acknowledge when you make a mistake

२ जब आप कोई गलती करें तो स्वीकार करें

Speech

वाणी

1 what you say carries extra weight

१ आप जो कहते हैं उसका अतिरिक्त महत्व है

2 acknowledge when you make a mistake

२ जब आप कोई गलती करें तो स्वीकार करें

3 rejoicing in merits

३ गुणों में आनंदित होना

Mind

मन

1 think things through

१ चीज़ों के बारे में सोचो

1 How do you think of your relation to the people in your Sangha?

Is it friendship you are offering or something else?

१ आप अपने स्थानीय संघ के लोगों के साथ अपने संबंध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह दोस्ती है जो आप पेश कर रहे हैं या कुछ और?

2 How do you feel about being visible in your local Sangha?

२ आप अपने स्थानीय संघ में उजागर होने पर कैसा महसूस करते हैं?

3 Have you been criticized while you have been chair? If so, how have you worked with it?

३ क्या अध्यक्ष रहते हुए आपकी आलोचना हुई है? यदि हां, तो आपने इसके साथ कैसे काम किया है?

4 Has being chair changed your attitude to the more personal aspects of Dharma practice? e.g. meditation & study

४ क्या अध्यक्ष बनने से धर्म अभ्यास के अधिक व्यक्तिगत पहलुओं के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया है? उदाहरण के लिए ध्यान और अध्ययन

